

प्रेस विज्ञप्ति

**श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने
"इंस्पायरिंग महाबैंक" पुस्तक का विमोचन किया**

पुणे, 1 दिसंबर, 2021: श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने श्री श्याम भुर्के, सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक और प्रधानाचार्य एसटीसी द्वारा लिखित "इंस्पायरिंग महाबैंक" नामक एक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक पिछले आठ दशकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की उपलब्धिपूर्ण यात्रा का दस्तावेज है, जिसमें बैंक की स्थापना की प्रेरक घटनाओं, पुणे शहर और तत्पश्चात महाराष्ट्र राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास में बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित समारोह में पुस्तक का विमोचन किया गया। इस समारोह में श्री ए. एस. राजीव, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, श्री आर. एस. बंसल, महाप्रबंधक, मानव संसाधन प्रबंधन, श्री श्याम भुर्के, श्री सुधाकर घोडेकर, पुस्तक के प्रकाशक, श्री प्रदीप मिश्रा, उप महाप्रबंधक, संसाधन आयोजना और श्री गिरीश थोरात, उप महाप्रबंधक, एमडी सचिवालय उपस्थित थे।

श्री ए. एस. राजीव ने बैंक की प्रेरक यात्रा को इस पुस्तक के माध्यम से खूबसूरती से समाहित करने के लिए श्री श्याम भुर्के का अभिनंदन किया और कहा कि यह पुस्तक बैंक से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रसन्नता की बात होगी। समारोह के दौरान बोलते हुए, श्री राजीव ने वर्ष 2024 तक रु.5 लाख करोड़ का कारोबार हासिल करने का विश्वास व्यक्त किया। श्री राजीव ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने पिछले कार्य-निष्पादनों को ध्यान में रखकर उससे बेहतर प्रदर्शन का प्रयास किया है और बेहतरीन तथा व्यापक प्रोडक्ट बेस के साथ तेजी से प्रगति करने वाले तथा वित्तीय रूप से मजबूत बैंक का दर्जा हासिल किया है।

श्री श्याम भुर्के ने बहुत कम समय में बैंक का कायाकल्प करने के लिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री ए. एस. राजीव का अभिनंदन किया और बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रगति पथ पर अग्रसर होने की शुभकामनाएं दी। श्री श्याम भुर्के एक विख्यात लेखक हैं, जिन्होंने लगभग 30 पुस्तकें लिखी हैं।